



भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 452] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 1976/आश्विन 22, 1898

No. 452] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1976/ASVINA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October 1976

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development No. H.O. 2167, dated the 11th June, 1970, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on an estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Superintending Engineer (Maintenance), Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.	Public premises belonging to or taken on lease by and under the administrative control of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.

[No. SYOI-71/76]

S. S. GILL, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 1976

का० आ० 677 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2167, तारीख 11 जून, 1970 को अधिकांत करते हुए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन सम्पदा-अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रदर्शन और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
अधीक्षण इंजीनियर (अनुरक्षण), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी स्थान

[सं० एस० वाई० ओ० आई०-71/76]

एस० एस० गिल, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

